



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 84] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 28, 1981/फाल्गुन 9, 1902
No. 84] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 28, 1981/PHALGUNA 9, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली संजालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1981

क्र. आ. 131 (अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, पंजाब नेशनल बैंक के अनुरोध पर 28 फरवरी, 1981 से राजस्थान राज्य में अलवर-भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि राजस्थान राज्य के अलवर तथा भरतपुर जिलों की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ. 1-25/80-आर. आर. बी (1)]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic)
(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 27th February, 1981

S.O. 131(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, being requested so to do by Punjab National Bank, establishes, with effect from the 28th February, 1981 a Regional Rural Bank in the State of Rajasthan under the name of Alwar-Bharatpur Anchalik Gramin Bank which shall operate within the local limits of the districts of Alwar and Bharatpur in the State of Rajasthan.

[No. F. 1-25/80-RRB(I)]

क्र. आ. 132 (अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा अलवर-भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक के प्रायोजक पंजाब नेशनल बैंक से परामर्श करके, भरतपुर को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहां पर अलवर-भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ. 1-25/80-आर. आर. बी. (2)]

S.O. 132(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Punjab National Bank, by which Alwar-Bharatpur Anchalik Gramin Bank has been sponsored, specifies Bharatpur as the place where Alwar-Bharatpur Anchalik Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 1-25/80-RRB(II)]

क्र. आ. 133 (अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) उपखंड (3) के अन्वय में, केंद्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए, अलवर-भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक, भरतपुर को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एफ. 1-25/80-आर. आर. बी (3)]

बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव

S.O. 133(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Alwar-Bharatpur Anchalik Gramin Bank, Bharatpur being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-25/80-RRB(III)]

BALDEV SINGH, Jt. Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष

अधिसूचना

बम्बई, 28 फरवरी, 1981

क्र. आ. 134 (अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि

उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्धारित बैंक को समाविष्ट किया जाय, अर्थात्—

“अलवर-भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक, भरतपुर (राजस्थान)”

[आर पी. सी. सी संख्या 200/आई. एन. सी. एल. 311-80]

एम. वी. हाटे, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

Rural Planning and Credit Cell

NOTIFICATION

Bombay, the 28th February, 1981

S.O. 134(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :—

“Alwar-Bharatpur Anchalik Gramin Bank, Bharatpur (Rajasthan).”

[RPCC No. 200/INCL 311-80]

M. V. HATE, Executive Director